

### **Genus Paper & Boards Ltd**



(A Kailash Group Company)
CIN No: L21098UP2012PLC048300 PAN NO-AAECG5483A

August 18, 2021

**BSE Limited** 

(Corporate Relationship Department), 1st Floor, P.J. Towers,

Dalai Street, Fort, Mumbai – 400001

Fax No.: 022-22723719 / 22723121 / 22722039

E-mail: corp.compliance@bseindia.com

Scrip Code: 538961

National Stock Exchange of India Ltd.

(Listing & Corporate Communications), Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051.

Fax No: (022) 26598237 / 38

E-mail: cc nse@nse.co.in

Symbol: GENUSPAPER

Dear Sir(s),

Sub: Newspaper advertisement of Notice of 10<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on September 18, 2021 through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM') and Remote e-voting information

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper advertisement in respect of information regarding Notice of the 10<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on Saturday, September 18, 2021 through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM') and Remote e-voting information, published in the newspapers in accordance with respective MCA Circulars.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours truly

For Genus Paper & Boards Limited

Anuj Ahluwalia Company Secretary

Encl: A/a



## **UP** amends key labour law, abolishes

**DEEPA JAINANI** Lucknow, August 17

imprisonment

**IN A MOVE** that will provide a huge relief to industrialists and also help to attract more investors to set up industrial units in the state, the Uttar Pradesh cabinet has approved the amendment to Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) Act 1978, which technically eliminates the possibility of imprisonment in case an employer does not pay timely wages.

"The cabinet has cleared the amendment in which the employer will no longer be jailed but will henceforth only be fined ₹50,000 to ₹100,000. There has been a long-standing demand from the industry to abolish imprisonment and it is also in line with the Government of India's directive to decriminalise investment," said

**Particulars** 

Not Profit //Loss) from ordinary activities afte

period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive

authorities and bank actions are stayed till further orders

Triveni Turbine Limited

CIN: L29110UP1995PLC041834

Regd. office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extn., Noida, Uttar Pradesh - 201 305

Corporate office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector - 16A, Noida,

Uttar Pradesh - 201301

E-mail: shares.ttl@trivenigroup.com, Website: www.triveniturbines.com,

Phone: 91 120 4308000 / Fax: 91 120 4311010-11

Prior Information regarding 26th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Company

will be held on Wednesday, September 15, 2021 at 3.00 P.M. IST through Video

Conferencing ("VC")/other Audio Visual Means ("OVAM") in compliance with all the

applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, read with all applicable circulars on the matter issued

by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India

The Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2020-21 will be sent to all

members whose email ids are registered with the Company/Depositories/Depository

Participants in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular. Members

may also note that the Notice and the Annual Report will be available on the Company's

website at www.triveniturbines.com and on the websites of the Stock Exchanges i. e

BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited

at www.nseindia.com and on the website of KFin Technologies Private Limited,

("KFintech") at https://evoting.kfintech.com/. Members can attend the AGM through VC/

OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice.

Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of

Members are requested to contact the Depository Participants in case of share held in

electronic form and the Company's Share Department in case of share held in physical

form for validating / updating their e-mail address and mobile nos. including address

and bank details. Members who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting notice could not be

serviced, may get their e-mail address and mobile number registered with KFintech, by

clicking the link:https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx

Members are requested to follow the process as guided to capture the email address

and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions

along with the user ID and Password. In case of any queries, Members may write to

einward.ris@kfintech.com. Alternatively, Members may send an e-mail request at the email Id einward.ris@kfintech.com alongwith scanned copy of the signed request

letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client

Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical

Members will have an opportunity to cast their votes(s) remotely on the business as

set forth in the Notice through remote e-voting. The manner of remote e-voting for

shareholders in dematerialised mode, physical mode and members who have not

registered their e-mail address is provided in the Notice. The details will also be

available on the website of the Company at www.triveniturbines.com and on the website

The facility for e-voting will also be provided at the AGM ("Insta Poll") and members

attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote

Members who do not receive an e-mail or whose e-mail address are not registered with the Company/ its RTA /Depositary Participants(s) may generate login credentials by

The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

The Board of Directors at its meeting held on June 28th, 2021 has recommended a final dividend of Rs 1.20 per share of face value of Re 1/- each. The record date for the

purpose of determining eligibility for receipt of final divided is September 8, 2021. The final dividend, if approved, by the members at the AGM, will be paid electronically to

members who have updated their bank account detail for receiving dividend through electronics means. For members who have not updated their bank account details,

dividend warrants/ demand drafts will be sent to them subject to availability of postal service. To avoid delay in receiving, dividend, members are requested to update their

bank account details with their Depository Participants, where shares are held in

dematerialised mode, and with Alankit Assignments Ltd the Registrar and Transfer Agent

Pursuant to the IncomeTax Act, 1961 as amended by Finance Act, 2020 dividend income

is taxable in the hands of members and the Company is required to deduct tax at source

Further the Finance Act 2021, has inserted the provisions of Section 206AB of the Act

with effect from July 1, 2021. The provisions of Section 206AB of the Act require the

Company to deduct tax at higher rates, as mentioned from dividend amount paid/

credited to members who (a) have not filed return of income for two previous assessment years; and (b) are subjected to tax deductions / collections at source, in aggregate

To enable compliance with respect to TDS, members are requested to complete and/ or

update residential status, PAN, Category with their DPs or incase of shares held in physical form with the Company / Registrar and Transfer agent by uploading the

documents at https://ris.kfintech.com/form15 latest by 5.00 p.m. on 5th day of September,

(SEBI), to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

of KFintech at https://evoting.kfintech.com/.

following the instructions given in the AGM Notice.

of the Company, where the shares are held in physical mode.

from dividend paid to members at the prescribed rates.

amounting to Rs 5,000 or more in each of two such years.

at the meeting through Insta Poll.

Date: 14-August-2021

Earnings per share (Not annualised) :

Total Income from operations

Suresh Chandra, additional chief secretary labour and employment, adding that to attract investment, stress is being laid on reducing the regulatory compliance burden.

Earlier under the act, if an employer owed ₹1 lakh or more in wages to a worker and did not pay it, he would have been imprisoned for three months three years, along with a fine ₹50,000.

## Rice exports from India to take a hit this year NANDA KASABE

Pune, August 17

non-availability of containers and a price drop in rice rates by Vietnam, Thailand and Pakistan are likely to impact rice exports from India in the season of 2021-22. Although exporters have signed forward contracts of 1-1.2 million tonnes (MT) monthly till November 2021, total exports are likely to be lower at around 12 MT industry experts said. India had achieved the highest-

**HIGH OCEAN FREIGHT** rates.

ever exports of 17.72 MT of rice worth \$8.89 billion in FY21.

BV Krishna Rao, president, Rice Exporters Association said high freight cost was becoming a major challenge for exporters apart from increasing logistic bottlenecks at ports. "Last two to three months, no containers have been able to leave because of rains and today at least 15 vessels are waiting at the Kakinada port," he explained.

"In a letter, we have approached the railway min-

Chief Operating Officer, ACCF

(Unaudited)

299.87

(199.84)

(199.84)

(199.84)

For Sea TV Network Limited

Neeraj Jain (Chairman & Managing Director)

286.1

(108.79)

(108.79)

Audited

1,366.67

(863.26)

(863.26)

(850.79)

1,202.00

Downtown Hospital, Guwahati -781022, Assam

Tender Notice (e-Tender)

of below mentioned goods/services from reputed and experienced

1. Hiring of hospital Security Services for 9 hospital sites

2. Pneumatic Tube System (for Guwahati and Dibrugarh)

Details of Bid schedules are mentioned in respective bid documents

www. accf.procure247.com and www.assamcancercarefoundation.org

31-03-2021

Audited

1,227.98

(546.01)

(546.01)

(635.19)

(4.54)

firms, for its hospitals at various locations in the state of Assam.

3. Kitchen equipment for 9 hospitals

which will be uploaded in 1-10 days in the e-portal

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021

Standalone

(Unaudited)

236.33

(1.04)

289.69

(162.36)

(162.36)

(162.36)

The above Results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their Meeting held on August 14

2. The statutory auditors of the company in their audit report for the quarter ended 30th June'2021 have expressed qualification, regarding non provisionir

The Allahabad Bank (now merged with Indian Bank w.e.f. 01.04.2020) initiated recovery proceddings by taking, interlia, SARFAESI actions for
bossession and auction of charged immovable properties of the Company and guarantors which are disputed by both in jurisdictional court and other

I. The above is an extract of the detailed format of audited standalone, and consolodated Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited standalone and cor Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.seatvnetwork.com

ACCF invites bids/proposals for supply, installation, and commissioning

istry to seek additional railway sidings with the opening of the deep-water port. The capacity has doubled from 7 to 15 vessels and, therefore, requires more sidings to cater to the growing requirements," the association

sourced from Chhattisgarh,

regions to fulfil the shipments. Moreover, Vietnam which

prices. Last year they had held positions at higher levels. Thai-\$390 per tonne.

#### R S SERVICES PRIVATE LIMITED 8885/2, Multani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi 110055 imail- ushaagar1234@yahoo.com

compliance with the Para 5 of Notification No. DNBS PD) 029/CGM (CDS)-2015 issued by Reserve Bank o

ndia on July 09, 2015. Notice is hereby given that the R 5 SERVICES PRIVATE LIMITED, a company incorporated der the companies Act, 1956/2013 and Registered with serve Bank of India vide Certificate Number B 4.00067 as a Non Deposit taking Non-Banking Financi mpany, with its Registered office situated at 8885/2 ultani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi 110055 has is. USHA DEVI AGARWAL (DIN- 02960325) is appointe s a new director of the company on 1st October, 2020

2960289) take place on 3rd October, 2020. he above Notice is being given pursuant to RBI Circula DNBR, (PD) CC, No.065/03.10.001/2015-16 dated July 1/05.18.017/2021-22.

eserve Bank of India, 6, Sansad Marg, Delhi 11000 ithin 30 days from the date of publication of this notice ting therein the nature of interest and grounds of plection. This public Notice is being issued jointly by the npany and the above-mentioned Acquirers.

nd resignation of Mr. RISHU AGARWAL (DIN

9,2015 and other relevant Regulations. The company as already obtained the prior approval for change of magement from RBI, Delhi vide letter No. S204/CMS my clarification / Objection in this regard may be ddressed to Department of Non-Banking Supervision

For R S SERVICES PRIVATE LIMITED

DAYA BANSAL, DIN No- 02960325 (Name of Exisiting Director), (Place- New Delhi)

99

#### STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygle Assam Cancer Care Foundation **DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI** 3rd Floor, V.K. Trade Centre G. S Road Opposite **EXECUTIVE ENGINEER (NORTH WEST)-I**

H-BLOCK UDYOG NAGAR INDL. AREA, PEERA GARHI CHOWK, NEW DELHI-41 NIT No. 23/ EE (NW)I/(2021-22)

L				Troop Hotiot Tollagi			
	S. N.	Name of Work	Amount Put to tender (Rs.)	EMD	Tender Fee's	Dt. of release of tender procurement solution/I.D. No.	Last dt./ time of recei of tender through E- procurement solutio
	1.	Replacement of 400mm dia. Main water line from kumar sweet corner to D-Block Agar Nagar Prem Nagar-III Som Bazar road Kirari Constituency (AC-09) under ZE-I/ EE(NW)I	48,89,303/-	No: DJB/2020 21/Misc-II(PT)/971 Dated: 23.12.2020	500/-	16/08/2021/ 2021_DJB_207111_1	31-08-2021 at 3.00 P.M.

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in

(HIMANSHU AGARWAL) EX. ENGINEER (NW)-

# Genus energizing lives

**GENUS PAPER & BOARDS LIMITED** 

(CIN: L21098UP2012PLC048300) Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001 (U.P.) Phone: 0591-2511171, Fax: 0591-2511242, Website: www.genuspaper.com | Email: cs@genuspaper.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') on Saturday, September 18, 2021 at 11.30 A.M. IST, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as 'relevant circulars'), without the physical presence of the members. The members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013

In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2020-21 will be sent only by email to all those members of the Company whose email id are registered with the company/ Depository Participants/ Registrar and Transfer Agent, viz. Niche Technologies Private Limited. These aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.genuspaper.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (https://www.bseindia.com/) and National Stock Exchange of India Limited (https://www.nseindia.com/) and on the website of CDSL at <a href="http://www.evotingindia.com/">http://www.evotingindia.com/</a> in due course of time.

Manner of registering/updating email addresses who have not registered /updated their email addresses with the To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2020-21, the members are requested to register/ update their

email address / contact number in the following manner: In case of physical holding: Member may send an e-mail request to the Company/RTA at cs@genuspaper.com and

nichetechpl@nichetechpl.com along with: scanned copy of the signed request letter mentioning Name, Folio Number, Share certificate number, complete

address, email address and mobile number, and scanned copy of self-attested PAN card.

Further, shareholder may also visit the website www.genuspaper.com or in email id cs@genuspaper.com and update their

In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized form are requested to register / update their email addresses with their relevant Depository Participant.

The manner of voting remotely (remote E-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.genuspaper.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com/. The login credentials for casting vote through e-voting shall be made available to the

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during AGM. In case of any query/grievance pertaining to E-voting, please contact Mr. Anuj Ahluwalia, Company Secretary, Phone No.

This information is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in compliance with the relevant Circulars as referred hereinabove. By Order of the Board

For Genus Paper & Boards Limited

Anuj Ahluwalia

Email: investors@aajtak.com

Company Secretary

Date: August17, 2021

## T.V. TODAY NETWORK LIMITED

CIN: L92200DL1999PLC103001, Website: www.aajtak.intoday.in Regd Office: F-26, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110 001 Telephone: 0120-4807100, Fax: 0120-4807172

NOTICE OF 22<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 22<sup>™</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of T.V. Today Network Limited will be held on Thursday, September 16, 2021 at 03:30 p.m. through video conference (VC) / other audio- visual means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular Nos.14/2020 (dated 8" April 2020), 17/2020 (dated 13<sup>th</sup> April 2020), 20/2020 (dated 5<sup>th</sup> May 2020) followed with Circular No. 02/2021 (dated January 13, 2021), issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without

In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circular, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2021 have been sent on 6th August, 2021 to all the members, as on 30th July, 2021, whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company https://aajtak.intoday.in/investor/, on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and <a href="https://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> respectively, where the Company's shares are listed and also at the website of our RTA at https://www.mcsregistrars.com/

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the RTA/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, folio number, scanned copy of share certificate (front and back) along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2020-21 along with AGM Notice by email to admin@mcsregistrars.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants.

The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through video conference (VC) / other audio- visual means (OAVM)

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 09, 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of NSDL. All the members are informed that:

- 1. The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means:
- The remote e-voting shall commence on September 13, 2021 at 09:00 a.m. (IST);
- The remote e-voting shall end on September 15, 2021 at 05:00 p.m. (IST);
- 4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 09, 2021 and a person who is not a Member as on the cut off date should treat this Notice for information purposes only;
- 5. Person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM.
- 6. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change subsequently; b) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and voting at AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on toll free no.: 1800-1020-990/1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

For T.V. Today Network Limited Sd/-

Ashish Sabharwal Group Head-Secretarial & Company Secretary Membership No.: F4991 SW HOLDINGS LIMITED

CIN: L67120MH2001PLC217751 Regd. Off.: Village: Vasind, Taluka: Shahapur, District: Thane - 421 604 Phone: 022-4286 1000/02527-220022 Fax: 022-4286 3000/02527-220020

Website: www.isw.in NOTICE OF THE 20" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held in Wednesday, September 15, 2021 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of AGN which is being circulated for convening the AGM.

n view of the ongoing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its circula No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 20 dated May 5, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India vide its Circula io. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as 'SEBI Circulars' has permitted the holding of AGM(s) through VC / OAVM, without the physical presence of the n compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of the AGM along with

the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Shareholders who have no registered their email address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting notice could not be serviced, may temporarily provide their email address and mobile number to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and nobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the Use

D and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward ris@kfintech.com

Members may note that the Notice of the 20th AGM and the Annual Report 2020-21 will also be

available on the Company's website www.jsw.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limiter and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM through the VC/ OAVM facility only The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/ OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum unde Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing the remote e-voting facility ("remote e-voting) to all its Members to cast heir votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing

the facility of voting through e-voting during the AGM ("e-voting") to those Members who will be present in the AGM through Video Conference OAVM / facility and have not cast their vote through remote e-Voting. Detailed procedure for remote-voting/ e-voting for shareholders holding shares in Dematerialized mode, Physical mode and for shareholders who have not registered their emaaddress is provided in the Notice of AGM.

Date : August 17, 2021

For JSW Holdings Limited Sanjay Gupta

JINDAL Part of O.P. Jindal Group

Company Secretary

SRM ENERGY LIMITED CIN: L17100DL1985PLC303047 Regd. Office: 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi 110057 Website: www.srmenergy.in | Email: info@srmenergy.in Tel. No. 011-41403205

Notice is hereby given that-

The 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 9th September, 2021 at Federation of Indian Export Organisations, Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, OPP, Army Hospital Research and Referral, New Delhi 110 057 at 11:00 A.M to transact the business as set out in the Notice of said AGM dated August 10, 2021. view of the Continuing Covid-19 pandemic and pursuant to General Circular No. 02/2021

NOTICE

2020 by the Ministry of Corporate Affairs and the Circular issued by SEBI bearing No. SEBI/HO CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 in continuation of earlier circular dated 12th May, 2020, please take note that the Annual Report containing Notice of AGM for the Financial Year 2020-21 has been sent to all Shareholders by way of electronic mode (e-mail) only, whose -mail addresses are registered with the Company/ Depository Participants

urther, as per the aforesaid guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India a Notice/advertisement in the newspapers was issued by the Company on 11" August, 2021 addressing all the shareholders, requesting hem to register their e-mail id with the Company/ Depositary Participant. Also, the company on 4\* August, 2021 had published on its website and the website of stock exchange where company's shares are listed i.e., BSE Limited, about the aforesaid request of registering heir e-mail id to receive the Annual Report of the Company and also about e-voting facility. he Annual report for FY 2020-21 is available and can be downloaded from the website of the Company at http://www.srmenergy.in/Home/AnnualReports and the website of the Sombay Stock Exchange at https://www.bseindia.com/stock-share-price/srm-energy-ltd menergy/523222/financials-annual-reports/ where the shares of the Company are listed

ursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) equiations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules nade there under, it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 3, 2021 to Thursday. September 9, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Regulation 44 of the SEB Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies

Management and Administration) Rules, of the Companies Act, 2013, the Company has provided all its Members (holding shares both in physical and in electronic form) the facility to exercise their vote (on the resolutions as enumerated in the Notice of the AGM), by electronic voting (e-voting hrough the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The cut-off date to ecord the entitlement of shareholders to cast their vote electronically is 2<sup>rd</sup> September, 2021. If the members be informed that (a) the Businesses as set out in the Notice of 34" AGM may be ransacted by electronic voting. (b) the dispatch of annual report (by way of email only) for financial vear 2020-21 has been initiated on 17th August, 2021 (c) the voting through electronic means shall commence on 9:00 A.M. on 6\* September, 2021 (Monday) and ends on 5:00 P.M. on 8\* September 2021 (Wednesday). (d) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on 8th September, 2021 (Wednesday), (e) the Notice of the 34th Annual General Meeting is available on the Company's website http://www.srmenergy.in/Home/AGMDocumentsand CDSL's website https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp. and (f) for the process and manner of electronic voting members may go through the instructions as contained in the Annual Report

2020-21 or visit CDSL's website https://www.evotingindia.com/Help.jsp

as mentioned for e-Voting in the Annual Report. The facility for voting through physical mode shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the meeting in physical mode. The members who have cast their votes by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Satish Kumar Nirankar of M/s S.K. Nirankar & Associates, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer, for the ensuing AGM. n case you have any queries or issues regarding e-voting, you may write an email to CDSL at help

case any person become member after dispatch of the aforesaid Notice/Annual Report and olding shares as on the cut-off date i.e., 2" September, 2021 may follow the same instruction

desk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. Members may also contact for any query or inconvenience or grievances if any, in voting through electronic mode at e-mail cs@srmenergy.in and phone number 011-41403205 of the Company

By Order of the Board of Directors For SRM Energy Limited

Place: New Delhi Date: 17.08.2021

(Suvindra Kumar) Company Secretary ACS-22747

CIN: L27102MH1994PLC152925 Regd. Office: JSW Centre, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Tel.: 022-4286 1000 Fax: 022-4286 3000 Email: jswsl.investor@jsw.in Website: www.jsw.ir

**NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES** 

Steel Limited

Notice is hereby given that the Share Certificates in respect of the following Equity Shares

have been reported to be lost/misplaced and the Shareholders thereof have applied for duplicate Share Certificates in lieu thereof.

Share Certificates Certificate Distinctive Name/Joint Names No(s) To Shares From JSW0008953 SAVITA GUPTA 2438358 2380660921 2380660960

JSW0309060	KAUSHLYA RANI	2450556	2382046671	2382046880	210
JSW0316749	RAKESH KUMAR GOEL MANJU GOEL	2461612	2383263051	2383263140	90
JSW0321591	VINOD	2467670	2384007621	2384008050	430
JSW0321602	VINOD GUPTA	2467673	2384009961	2384010390	430
	MANASH BHOWMIK				
JSW0399036	KABITA BHOWMIK	2589934	2396065261	2396065340	80
JSW0430389	PRABHAKARA SHETTY HEGGUNJE	2635043	2405334671	2405335100	430
JSW0350813	RAKESH KOSHIK	2511176	2387696331	2387696500	170
JSW0723499	RAVIKUMAR LEEKHA PAWAN KUMAR LEEKHA	2611576	2398398441	2398400440	2000
	VIJAY KUMAR LEEKHA MANORAMA LEEKHA				
JSW0723500	VIJAY KUMAR LEEKHA PAWAN KUMAR LEEKHA	2611577	2398400441	2398402440	2000
JSW0723501	PAWAN KUMAR LEEKHA VIJAY KUMAR LEEKHA RAVI KUMAR LEEKHA	2611578	2398402441	2398404440	2000
JSW0725262	RANU TOLA	2661581	2409310291	2409311290	1000
JSW0807808	SUNIL KUMAR SHARMA	2457777	2382834751	2382835010	260
JSW0100300	MEERA SHARMA	2718558	964768361	964768400	40
JSW0069776	VENUGOPAL JHANWAR	2488887	2385870881	2385870920	40
JSW0253489	VINOD KUMAR MEHTA	2640409	2405893381	2405893420	40
JSW0253492	VINOD KUMAR MEHTA	2640412	2405893501	2405893540	40
JSW0385581	PUNDHILIK PANDURANG POL	2571682	2393484031	2393484110	80
JSW0434887	VINOD KUMAR MEHTA	2640579	2405904631	2405904710	80
JSW0724479	VINOD KUMAR MEHTA	2640665	2405923171	2405924170	1000
JSW0724493	VINOD KUMAR MEHTA	2640672	2405930171	2405931170	1000
JSW0724498	VINOD KUMAR MEHTA	2640677	2405938171	2405940170	2000
JSW1164846	P SHAIKSHAVALI AKBAR	2637805	2405611181	2405611220	40
JSW1178506	KANCHAN AILAWADI	2632585	2405091391	2405091640	250
JSW1216310	PUNDALIK PANDURANG POL	2571776	2393509161	2393509190	30
JSW0419711	SUDHAKARA REDDY CHENCHU	2619708	2399347231	2399347310	80
JSW0723766	SUDHAKARA REDDY CHENCHU	2619729	2399349261	2399350260	1000
JSW1219312	TULSI MUKHERJEE SRIRUPA MUKHERJEE	2582780	2395127501	2395127510	10
JSW1219313	TULSI MUKHERJEE SRIRUPA MUKHERJEE	2582781	2395127511	2395127520	10
JSW1219314	TULSI MUKHERJEE SRIRUPA MUKHERJEE	2582782	2395127521	2395127530	10
JSW1219315	TULSI MUKHERJEE SRIRUPA MUKHERJEE	2582783	2395127531	2395127540	10
JSW1227983	NARAYAN VISHNU BHAT	2637265	2405553271	2405553290	20
JSW0804684	PANKAJ BABULAL PANCHAL	2688134	2412598801	2412599150	350
JSW0251223	S PARVEEN BANU	2637939	2405621341	2405621380	40

Any person who has a claim on the above Share Certificates is requested to contact the Company at its Registered office within 15 days, failing which the Company will proceed to issue duplicate certificates.

Place : Mumbai Date : 17-08-2021 Part of O. P. Jindal Group

New Delhi

Lancy Varghese **Company Secretary** 

For JSW Steel Limited

financialexp.epapr.in

Place: Noida (U.P.) Date: 17th August, 2021

Company Secretary Membership no A8047

For Triveni Turbine Limited




Rajiv Sawhney



Place: New Delhi

Date: August 17, 2021



logistics as Kakinada Maharashtra and Orissa

basmati rice trade depends on Indian Railways for interstate port is the main shipment port for non-basmati rice

The Indian non-

turned out to be a major buyer last year has stopped purchasing rice from India from May. Vietnam importers are seeking discounts for the release of cargo, Rao said. "Thailand, Vietnam and Pakistan have also dropped

land's 5% broken rice price is quoted at \$380 per tonne. While the price of Vietnam's 5% broken rice is quoted at

**Press Notice Tender** 

ISSUED BY PRO (WATER) Advt. No. J.S.V. 291(2021-22)

Notice be and is hereby given that the 10" Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video

email ID/ contact number thereof.

members though email. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their votes by remote E-voting will be able to vote at the AGM.

0591-2511171, Village Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, e-mail: cs@genuspaper.com

Place: Moradabad

NETWORK

the physical presence of the Members at a common venue.

International **Travel House** 

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड CIN: L63040DL1981PLC011941 पंजीकृत कार्यालयः ''ट्रैवल हाउस'', टी-2, कम्युनिटी सेंटर, शेख सराय, फेज-I, नई दिल्ली-110017 टेली.: 91-11-26017808

| ई-मेलः investor-TH@ith.co.in, वेबसाईटः www.internationaltravelhouse.in सुचना

एतदहारा सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सर्क्युलर्स के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप कम्पनी की 40वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. में विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमों से आयोजित की जायेगी।

लागु होने वाले विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार 40वीं एजीएम की सुचना तथा रिपोर्ट तथा 2021 की लेखाऐं 20 अगस्त, 2021 को अथवा उससे पूर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। उक्त एजीएम सूचना तथा रिपोर्ट तथा लेखाएँ 2021 कम्पनी की वेबसाईट (www.internationaltravelhouse.in) तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार 39वीं एजीएम में विचार के लिये प्रस्तावों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व मतदान करने की सुविधा) तथा साथ ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जायेगा जिसके लिये कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाऐं ऐसे सदस्यों जो प्रमाणपत्र प्रारूप में शेयर धारित करते हैं अथवा जिन्होंने अपने ई–मेल पते कम्पनी

अथवा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं तथा एजीएम की सूचना तथा रिपोर्ट एवं लेखाएँ 2021 प्राप्त करना चाहते हैं अथवा एजीएम में भाग लेने के इच्छुक हैं अथवा रिमोट ई-वोटिंग अथवा मीटिंग के दौरान ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान करना चाहते हैं, वे लिंक https://www.internationaltravelhouse.in/agm-info.aspx# के अंतर्गत 'इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति के माध्यम से दस्तावेजों की सेवा' सेक्शन में जाकर कम्पनी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत कर यजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। डीमैटेरियलाईज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि संबंधित डिपॉजिटरीज के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराऐं। इन्टरनेशनल टैवल हाउस लिमिटेड के लिए

तिथि: 17 अगस्त, 2021 कंपनी सचिव

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना मै. टू ब्रदर्स बेवरेज प्रा.लि. (परिसमापन में) CIN:U15122DL2015PTC282963 की आईबीसी, 2016 के अंतर्गत बिक्री सूचना पंजी. कार्यालयः जी-5, भू तल, खिजराबाद 27-बी, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी (लॉयन्स हॉस्पीटल के निकट) नई दिल्ली

परिसमापक कार्यालयः 172, प्लॉट नं.-७-सी, सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-110077 माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ द्वारा नियक्त परिसमापक द्वारा गोइंग कंसर्न के रूप में मै. ट्र ब्रदर्स बेवरेज प्रा.लि. (परिसमापन में) की बिक्री/अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net द्वारा की जाएगी | ई-नीलामी तिथि | आर्गश्चित मल्य | ईएमडी राणि एवं | बोली

	144.4	एवं समय	( आईएनआर )	दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा	वृद्धि मूल्य
		वं	च:1		
	आईबीबीआई (परिसमापन	तिथिः 16.8.2021	रु. 2,80,00,000/−	रु. 28,00,000/− (रु.	₹.
	प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के	समयः 11.00 बजे	(रु. दो करोड़ नब्बे	अट्ठाईस लाख मात्र)	200000/-
	विनियमन 32 के अनुसार टू ब्रदर्स	पूर्वा. से 12.30 बजे	लाख मात्र)		
	बेवरेज प्रा.लि., परिसमापन में)	े अप. तक			
	की बिक्री				
d		JO N			

निरीक्षण की अंतिम तिथिः केवाईसी दस्तावेज के साथ एवं परिसमापक को पूर्व सूचना देकर 13.8.2021 के 5.00 बजे अप. तक

ईओआई जमा करने की अंतिम तिथिः 14.8.2021 के 5.00 बजे अप. तक प्रस्तावित नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

''कोई उपचार नहीं आधार'' पर स्वीकृत सेवा प्रदाता द्वारा होगी तथा इस प्रकार बिक्री बिना किसी वारंटीज अथवा क्षतिपूर्ति के होगी। 2. मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-Auction Tiger (https://ncltauction.auc-

1. ई-नीलामी ''जैसा है जहाँ है'' ''जो भी जैसा है'', ''जो कुछ भी वहाँ है आधार'' पर तथा

निर्धारित प्रारूप में बोलियाँ परिसमापक के पास ऑनलाइन जमा की जायेगी। सम्पूर्ण ई-नीलामी

प्रक्रिया के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के साथ बोली प्रपत्र वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net से डाउनलोड की जा सकती है। कम्पनी के साथ अंतरण के लिये पहचान की गई परिसम्पत्तियों का विवरण भी उक्त ई-नीलामी

प्रक्रिया दस्तावेज में दी गई है। परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या

निरस्त करने अथवा ई-नीलामी स्थिगित/निलम्बित/रद्द करने अथवा किसी भी चरण में ई-नीलामी से सम्पत्ति या उसके भाग को वापस हटाने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है। यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के अधीन होगी

विजय कमार परिसमापक

ईमेलः tbbpl.liquidation@gmail.com तिथि: 17.8.2021

स्थानः नर्ड दिल्ली

प्रथम नीलामी की तिथि: 25.08.2021

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथ्ट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथ्युट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300,

IBBI पंजी. सं.: IBBI/IP-02/IP-00652/2018-19/12020

(स्थान - नई दिल्ली)

सार्वजनिक सूचना

दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.03.2020 की अवधि तक NPA खातों & 31.12.2020 की अवधि

Patna-Kadamkuan: MAL-608, 936, 1010, MHL-110, MHP-22, MPL-113, MSL-12496, MUL-935, 937, 944, 950, 991, 1005, 1152, 1261 1321, 1402, 1490, 1521, 1541, 1559, 1573, 1576, 1818, 1819, 1914, 1971, 2055, 2180, 2290, 2296, 2349, 2356, 2379, 2403, 2430, 2433, 2453, 2475, 2517, 2544, 2635, 2645, MWS-139, 327, 334, 352, 425, 441, 458, 522, 573, 643, 656, 743, 845, 857, 874, 914, 1130, 1138 1161, 1255, 1519, 1580, 1705, 1914, 1986, 2302, 2594, Patna-Ashok Raj Path: MSL-10171, MUL-689, 830, 1034, 1276, 1320, 1321 1322, 1447, 1581, 1647, 1709, 1804, 1825, 1857, 1916, 1918, 2028, 2063, 2098, 2193, 2265, 2384, 2394, 2611, 2762, 2799, 3049, 3149,

तक **नकली / कम शुद्धता**) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।.

3196, 3228, 3233, 3259, 3269, 3313, 3315, 3317, 3352, 3357, 3363, 3387, Patna-Raja Bazar: MAL-485, 1039, 1055, 1075, MSL-10203 10268, 10272, MUL-526, 1103, 1458, 1470, 1497, 1645, 1722, 1798, 2110, 2210, 2370, 2372, 2378, 2433, 2613, 2694, 2761, 2774, 2900, 2905, 2985, 3002, 3016, 3290, 3318, 3624, 4923, 5072, 5230, 5275, 5427, 5433, 5487, 5488, MWS-102, 126, 154, 171, 204, 373, 379, 638, Patna-Hanuman Nagar: MAL-437, 559, 827, 853, 925, 1111, 1231, 1232, 1233, 1317, MSL-5359, 5394, 5421, MUL-827, 1155, 1156, 1341, 1714, 1715, 1727, 1728, 1813, 1838, 2006, 2007, 2015, 2048, 2063, 2090, 2111, 2215, 2344, 2413, 2471, 2515, 2516, 2562, 2569 2691, 2710, 2727, 2818, 2826, 2987, 3004, 3066, 3072, 3075, 3131, 3174, 3211, 3244, 3326, 3348, 3349, 3408, 3458, 3551, 3587, 3694, 3751, 3775, 3799, 3892, 3940, 4190, 4191, 4293, 4324, 4457, 4618, 4862, 4883, 4989, 5013, 5026, 5032, 5055, 5171, 5179, 5222, 5224 5264, 5282, 5365, 5370, 5411, 5448, 5469, 5498, 5505, Patna City-(BI): MUL-287, 700, 1049, 1076, 1104, 1166, 1302, 1321, 1402, 1427, 1496, 1592, 1775, 1844, 1894, 1931, 1936, 1992, 2067, 2075, 2112, 2144, 2163, 2239, 2353, 2750, 2777, 2886, 2894, 3054, 3077, 3122, 3133, 3157, 3182, 3229, 3296, 3393, 3398, 3402, 3407, 3415, 3425, 3449, 3494, 3507, 3578, 3627, 3641, 3684, Patna-Khajurbana Ashok Rajpath: MDL-9, MSL-8912, 8913, 8960, 8961, 9048, 9049, 9050, 9110, MUL-468, 934, 1087, 1147, 1214, 1598, 1632, 1637, 1653, 1869, 2045, 2257, 2464, 2538, 2623, 2778, 2788, 2790, 3038, 3300, 3421, 3443, 3465, 3475, 3495, 3548, 3678, 3697, 3705, 3729, 3741, 3799, 3803, 3812, 3819, 3842, 3843, 3933, 3943, 3947, 4017, 4018, Patna-Anishabad; MAL-589, 1565, 1873, 1874, 2134, MSL-10212, 11638, 11738, MUL-1765, 1798, 2020, 2235, 2331, 2490, 2505, 2567, 2596, 2644, 2654, 2733, 2742, 2753, 2776, 2777, 2827, 2939, 3192. 3304, 3357, 3399, 3485, 3525, 3606, 3607, 3609, 3633, 3648, 3681, 3682, 3685, 3696, 3816, 3831, 3848, 3850, 3892, 3905, 3951, 3975, 3981, 3987, 3990, 3993, 4033, 4056, 4090, 4102, 4125, 4139, 4204, 4296, 4370, 4401, 4507, 4521, 4698, 4727, 4828, 4857, 5035, 5045, 5138, 5279, 5339, 5341, 5356, 5545, 5635, 5656, 5812, 6052, 6076, 6082, 6100, 6229, 6230, 6391, 6493, 6534, 6535, 6558, 6897, 7013, 7127, 7205, 7270, 7278, 7369, 7399, 7404, 7411, 7454, 7472, 7483, 7488, 7510, 7525, 7562, 7586, Patna-Kankarbagh: MAL-543, MSL-4241, 4278, MUL-639, 701, 771, 844, 849, 866, 886, 959, 1043, 1057, 1059, 1068, 1146, 1177, 1186, 1211, 1257, 1277, 1303, 1364. 1404, 1426, 1446, 1492, 1548, 1607, 1647, 1648, 1681, 1724, 1776, 1794, 1878, 1964, 1971, 1977, 2064, 2099, 2116, 2123, 2153, 2179, 2265, 2332, 2362, 2637, 2638, 2640, 2791, 2815, 2857, 2904, 2914, 3073, 3093, Patna-Kurji: MAL-374, 518, 793, 796, 1141, MSL-2353, 3433, 3579, 3867, 3893, 3981, 4019, 4020, 4032, 4040, MUL-586, 695, 698, 818, 915, 1070, 1108, 1114, 1126, 1136, 1144, 1154, 1165, 1171, 1196, 1215, 1232, 1242, 1269, 1271, 1275, 1286, 1301, 1317, 1322, 1331, 1360, 1385, 1397, 1402, 1417, 1469, 1499, 1515, 1527, 1532, 1539, 1542, 1545, 1546, 1567, 1696, 1836, 2177, 2201, 2225, 2296, 2422, 2425, 2426, 2451, 2478, 2520, 2532, 2573, 2610, 2688, 2721, 2725, 2730, 2763, 2814, 2881, 2896, 2977, 3011, 3027, 3051, 3052, 3145, 3195, 3259, 3284, 3616, 3646, 3754, 3844, 3884, 3938, 4016, 4286, 4309, 4324, 4334, 4388, 4459, 4514, 4599, 4622, 4688, 4700, 4744, 4747, 4810, Patna-Danapur: MAL-275, 764, 924, 965, MDL-67, MSL-1177, 1303, 1311, 1368, 1393, MUL-405, 716, 791, 846, 1059, 1121, 1206, 1228, 1238, 1248, 1315, 1322, 1340, 1390, 1399, 1508, 1601, 1667, 1781, 1793, 1974, 2069, 2218, 2324, 2346, 2432, 2459, 2473, 2490, 2529, 2589, 2625, 2668, 2720, 2740, 2767, 2769, 2792, 2886, 2944, 2988, 3054, 3148, 3168, 3180, 3203, 3355, 3426, 3467, 3481, 3558, 3719, 3818, 3949, 4206, 4445, 4451, 4618, 4647, 4654, 4663, 4676, 4696, 4751, 4753, 4792, 4810, 4891, 4909, 5033, 5070

नकली & कम शृद्धता: Patna-Kadamkuan: MUL-1129, Patna-Raja Bazar: MAL-1691, Patna-Hanuman Nagar: MUL-4509, 4566 Patna-Khajurbana Ashok Rajpath: MAL-499, Patna-Anishabad: MAL-2426, MUL-2740, 6132, 9208, Patna-Kankarbagh: MUL-753, 1849, Patna-Kurji: MSL-4021, Patna-Danapur: MUL-1229, 5683

द्वितिय नीलामी की तिथि: 26.08.2021, Auction Centre: First Floor, Kumar Complex, Khaipura, P.O.-B.V. College Thana-Raja

Bazar, Patna - 800014

www.readwhere.com

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति मेंजहा इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्दी, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

''प्ररूप संख्या आईएनसी–26' (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय

कंपनीयों के रजिस्ट्रार के समक्ष

रा.श.के. दिल्ली और हरियाणा

4 फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू

प्लेस, नई दिल्ली-110019

धारा 13 की उपधारा (3)

और सीमित दायित्व साझेदारी

नियम, 2009 की नियम 17 के मामलें में

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम,

2008 की घारा 13 (3) के मामलें में

किसी व्यक्ति का हित एलएलपी के पंजीकृत

कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने

की संभावना है तो वह अपने हित की प्रकृति और

विरोध के आधार, शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके

हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए,

इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस

दिनों के अन्दर कंपनीयों के एफिस्ट्राए, 4 फ्सोए,

आईएफसीआई टॉक्र, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

110019 को सुचित करें, और एक प्रतिलिपि

याचिकाकर्ता एलएलपी के उपरोक्त पंजीकृत

कृते ग्रीन पैराढाइज पैकेजिंग एलएलपी

हस्ता/-

हस्मीत सिंह

कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:

aingenance Congract For Network

**तिथि:** 17.08.2021

स्थानः सोनीपत

करता है।

...वाचिकाकर्त्ता

निदेशक), उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के **उप-नियम** (5) के खंड (ए) के मामले में

प्रिरका इन्फोसोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **ए-42/4, सेक्टर-62**, **नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी—201301** स्थित है, के मामव CIN: U22122UP2003PTC096932 ..... वाचिकाकर्ता आम जनता को ये सूचना दी जाती है कि कंपनी हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती । जिस में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत् विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है, ये विशेष प्रस्ताव **वारीख 01 जुन, 2021** को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में रजिस्टीकृत कार्यालय **"उत्तर प्रदेश राज्य"** से "दिल्ली राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए पारित किया गया है ।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित ।थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता । तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल क**र एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित क प्रकार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, बी**-2 विंग, हितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी. जी. ओ. **ऑम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003** पते पर पंजीकृत डाक द्वार भेज सकते हैं या सपर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकुर हार्यालय पते पर भी भेजें: 'रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ए-42/4, सेक्टर-62, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी–201301°

प्रिस्का इन्कोसोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड शिप्रा सिंह (निदेशक)

नामित मागीदार DPIN: 01092530 मकान नं. 45. ईश्वर कॉलोनी, मॉडल टाउन दिनांक:- 18 / 08 / 2021 उत्तर पश्चिम दिल्ली-110009 स्थान:– नोएडा, वृपी डीआईएन: 07064450

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

निविदा सूचना आमंत्रित August 18, 2021 टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है: अनुमानित बोली बोली जमा कराने की निविदा पूछताछ सं. अंतिम तारीख और समय/ लागत / धरोहर दस्तावेज कार्य का विवरण निविदा खोलने जमा राशि (रु) की बिक्री की तारीख और समय TPDDL/ENGG/ENQ/ 200001326/21-22. 42.60 Lakh 08.09.2021:1500 Hrs Supply & Installation of Air Conditioners 1.5 T 18.08.202 1.06,500/-08.09.2021:1700 Hrs. at TPDDL various offices (SAC & WAC) Tata Power-DDL/PMG/Tender/ Banking-2021/01 09.09.2021:1500 Hrs Notice Inviting bids for banking of upto 18.08.2021 09.09.2021; 1530 Hrs 300 MW RTC/Slot wise power on firm basis for the period of 16.10.2021 to 30.09.2022. TPDDL/ENGG/ENQ/ 200001328 /21-22

शुद्धिपत्र / निवि	ादा तिथि वि	स्तार
निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खोलने की तिथि
TPDDL-ENGG-ENQ-200001327-21-22 RC for Meter Replacement & Meter Seizure works	11.08.2021	01.09.2021 at 1700 Hrs 01.09.2021 at 17:30 Hrs *EMD (Rs) revised - 1.28Lacs to 60,000/-

IMPORTANT

website www.tatapower-ddl.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise advertisement in any manner whatsoever.

आर.एस. सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 8885/2, मुल्तानी ढांडा, पहाड्गंज, नई दिल्ली-110055 सीआईएन : U65100DL1989PTC03806 ई-मेल : ushaagar1234@yahoo.com

DNBR (PD) 029/CGM (CDS)-2015 के पैरा 5 अनुपालन में। एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निगमित तथा नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी के नॉन डिपॉजिट के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमाणपत्र संख्य बी-14.00067 के माध्यम से पंजीकत, जिसका पंजीकत पता 8885/2, मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 पर स्थित आर.एस. सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कम्पनी का प्रबन्धन परिवर्तित कर दिया है। सुश्री उषा देवी अग्रवाल (DIN-02960325) को 1 अक्टूबर, 2020

को नया निदेशक नियक्त किया गया तथा श्री रिश अग्रवाल (DIN-02960289) से 3 अक्टूबर, 2020 को त्यागपत्र प्राप्त किया गया। उपर्युक्त सुचना आरबीआई परिपत्र डीएनबीआर, (पीडी) सीसी, सं. 065/03.10.001/2015-16 दिनांक 9 जुलाई, 2015 के अनुसार तथ अन्य पासंगिक विनियमों के अनुसार दी जा रही है। कम्पनी आरबीआई, दिल्ली से पत्र सं. S204/CMS-VII/05.18.017/2021-22 के माध्यम से प्रबन्धन के परिवर्तन की अनुमति पहले ही ले ली है।

इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण/आपत्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक वे नॉन बैंकिंग सुपरविजन विभा, 6 संसद मार्ग, दिल्ली-110001 को इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर हित की प्रकृति तथा आपत्ति की पृष्टभूमि बताते हुए लिखा जा सकता है। यह सार्वजनिक सूचना कम्पनी तथा उपर्युक्त अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा जारी की जा रही है। कृते आर.एस. सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

दया बंसल, डीआईएन नं. : 02960325

भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता प्रासंगिक परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गयी है। सदस्यों को एतद्वारा सचित किया जाता है कि

> माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करके लेन-देन किये जाने हैं (''रिमोट ई-वोटिंग'') कम्पनी के संस्था के अन्तर्नियम की धारा 103ए का अनुमोदन;

जोमैटो एम्पलाई स्टॉक ऑप्शन प्लान 2018 का रेटिफिकेशन;

कम्पनी की अनुषंगी कम्पनि(यों) के कर्मचारियों हेतु जोमैटो एम्पलाई स्टॉक ऑप्शन प्लान 2021 के

2021 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी (दोनों तिथियाँ शामिल) c) केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021 तक सदस्यों के रजिस्टर

वेबसाइट www.nseindia.com, तथा कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए). लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एलआईआईपीएल") की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर उपलब्ध है। e) कम्पनी ने एलआईआईपीएल द्वारा प्रावधानित रिमोट वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सभी सदस्यों

कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है वह इसे केवल सूचना के उद्देश्य से समझे। ) भौतिक माध्यम में प्रतिभृति धारक सदस्य/संस्थागत सदस्य ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी पूछताछ के लिए https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प खण्ड के तहत फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स

कम्पनी के निदेशकों ने 10 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए श्री रूपेश अग्रवाल (सदस्यता सं. A16302; सीओपी सं. 5673), मैसर्स वन्द्रसेखरन एसोसिएट्स के पार्टनर, उनकी अनुपस्थित में श्री शशिकान्त तिवारी (सदस्यता सं. A28994), मैसर्स चन्द्रसेखरन एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

https://linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर क्लिक करके सर्विस टैब पर ई-मेल मेल पंजीकृत करा सकते हैं। सदस्य कृपया कृपया विवरण जैसे नाम, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी/पैन, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी उपलब्ध करायें। किसी पूछताछ के लिए सदस्य एलआईआईपीएल के पास rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं। सदस्यों के विवरण प्रस्तुत हो जाने पर शेयरधारक को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसके सत्यापन हेतु लिंक में प्रविष्ट करना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण हेतु सदस्य इलेक्ट्रॉनिक धारिता के मामले में अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी के साथ डिपॉजिटरी भागीदार द्वारा निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करें। भौतिक या डीमैट प्रारू में शेयरधारण करने वाले सदस्यों हेतु ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा उसकी रीति के निर्देश, ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया सचना में उपलब्ध है।

या इससे पूर्व घोषित किये जायेंगे और साथ ही कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर, कम्पनी की वेबसाइट www.zomato.com, आरटीए की वेबसाइट अर्थात www.linkintime.co.in और स्टॉक एक्सचेंजं तथा डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

टाटा कापटल फाइनाशयल सावसज ।लामटड सम्पर्क पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, **ТЛТЛ** नई दिल्ली-110055

(''अधिनियम'') की धारा 13(2) के तहत

मांग सचना की तिथि।

ऋण खाता सं.

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण तथा पनर्निर्माण एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि निम्नलिखित दायित्वधारियों/विधिक प्रतिनिधियों/विधिक उत्तराधिकारियों (कर्जदारों) ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल) से ग्रहण किये गये ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित मुलधन के भुगतान में चुक की है। टीसीएफएसएल के बकायों के पुनर्भुगतान में चुक करने के कारण आर.बी.आई. के दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों को नॉन-पर्फार्मिंग आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गय है। टीसीएफएसएल अपने अधिकृत प्राधिकारी के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के तहत कर्जदारों से सूचनाओं की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज तथा लागतों सहित कथित बकाया राशि का भुगतान करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित विधिक सूचनाएं जारी की हैं जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल कर्जदारों से निम्नलिखित सम्पत्तियों पर टीसीएफएसएल के पक्ष में कर्जदारों द्वारा सुजित प्रतिभृति के प्रवर्तन सहित अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी अथवा किसी अधिकार का उपयोग करेगा।

10.0		., 0 0 0 0		12.0		
7.	28.07.2021	i) हरजिन्दर सिंह, (ii) श्रीमती सुमन बाला, दोनों	७ जून,	28-07-2021 तक		
	20263455	निवासी म.नं. 53 जी, इन्दिरा एन्कलेव, सेक्टर 21-डी,	2021	रु. 23,87,819.78/-		
		फरीदाबाद, हरियाणा−121012				
प्रात	ाभूत आस्तिया का वि	वरण : सम्पत्ति दो दुकान सं. 12, 13, खाता सं. 2474/ 2	2949, ख	व्रसरा न. 134//11/2 <i>/</i>		
(2	-19) 12/2 (3-16)	) 13/3(1–11) 20/2/2 (2–13) में निर्मित, कुल रकबा	10 कन	ाल 10 मरला, इसका		
भा	भाग अर्थात 2.94 मरला, ब्लॉक-ए, बरादा, तहसील बरादा, जिला अम्बाला में स्थित, माप 2.94. मरला लगभग,					
श्री	साई गॉड ब्लेस शॉपिंग	ा कॉम्पलेक्स, अम्बाला, हरियाणा 133201 विक्रय विलेख <sup>हि</sup>	देनांक ०	7.11.2012 में अधिक		

दायित्वधारी(यों )/विधिक उत्तराधिकारी(यों )/

विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम

स्पष्ट वर्णित, हरजिन्दर सिंह के पक्ष में

L						1
г	2.	13.08.2021	🔃 1. मैसर्स एस.पी. बिल्डवेल, इसके प्रोपराइटर के माध्यम	4	13.08.2021	П
ı		7765087, 8920090		जुलाई,	तक रु.	
ı		तथा	रोहिणी, दिल्ली–110085	2021	59,37,170/-	ı
ı		TCFLA035900	2. पवनीत सिंह खुराना, बी–260, फार्मर्स अपार्टमेंट, सेक्टर			ı
		0010871890	13, रोहिणी, दिल्ली–110085, साथ ही : एमआईजी फ्लैट			П
ı			नम्बर 535, प्रथम तल, ब्लॉक एवं पॉकेट सी-8, सेक्टर-			ı
ı			8, रोहिणी, दिल्ली–110085			
			3. सिमरन कौर खुराना, बी-260, फार्मर्स अपार्टमेंट, सेक्टर			
			13 ਹੋਫ਼ਿਆਂ ਟਿਕਰੀ–110085			

दिनांक 21.05.2010 में अधिक स्पष्ट वर्णित, पवनीत सिंह खुराना के पक्ष में क्रियान्वित। उपर्युक्त मांग सूचनाओं की प्रभावी सर्विस सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम एतद्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्य से सर्विस प्रभावी कर रहे हैं। एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व

ब्लॉक एवं पॉकेट सी–8. श्रेणी एमआईजी. प्रथम तल. सेक्टर 8. रोहिणी. दिल्ली–110085. उपहार विलेख

का भुगतान इस सुचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपक यह सचना भी दी जाती है कि उपर्यक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनसार आप उपर्यक्त प्रतिभत आस्तियों का अन्तरण विक्रय, पट्टे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे। स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 18.08.2021 अधिकत प्राधिकारी टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

'प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए' सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

उत्तरी क्षेत्र

मै. एमएसएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनांसियल कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1106, आरजी ट्रेर टावर, बी-7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में है, के मामले में। याचिकाकर्ता/आवेदक

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 26 जुलाई, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किर्स व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो। वे उसके ऊपर वर्णित परे पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों क उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पीतमपुरा, दिल्ली-110034 आवेदक के लिए तथा उसकी ओर

लिमिटेड तिथि: 18.08.2021 हस्ता./ (सुधीर मलिक)

पताः एन-144, पार्क प्लेस. पार्क डाडव सेक्टर 53-54, मेट्टो स्टेशन, गुरुग्राम-122002

जोमाटो लिमिटेड

CIN: U93030DL2010PLC198141 पंजीकृत कार्यालय : भूतल, 12ए, 94, मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत दुरभाष नं. : 011 - 40592373

लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

ई-मेल : companysecretary@zomato.com, वेबसाइट : www.zomato.com पोस्टल बैलट सुचना ("सुचना") कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं नियम 22 (तत्समय में उसके पुन

अधिनियमन(नों) अथवा सांविधिक संशोधन(नों) सहित) के साथ पठित यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं धारा 110 ( इसके पश्चात 'अधिनियम' संदर्भित), समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 (''सूचीबद्धता विनियम''), साधारण बैठक पर भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (''एसएस-2'') तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय तथा भारतीय प्रतिभृति एर वेनिमय बोर्ड द्वारा रिलैक्सेशन, परिपत्र, स्पष्टीकरण (''परिपत्र'') एवं अन्य प्रयोज्य कानून तथ विनियमनों, यदि कोई हो, के अनुसार एतद्वारा सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कम्पनी नं व्याख्यात्मक विवरण सहित कम्पनी के उन सदस्यों के पास सूचना भेजने का कार्य केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 16 अगस्त, 2021 को परा कर लिया है जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021 अर्थात कट-आफ तिथि तक कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं। सुचना तथा बैलट प्रपत्र की

(क) निम्नलिखित विशेष व्यवसाय केवल इलेक्टॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान द्वारा पोस्टल बैलट वे

कम्पनी की अनुषंगी कम्पनि(यों) के कर्मचारियों हेत जोमैटो एम्पलाई स्टॉक ऑप्शन प्लान 2018 के

जोमैटो एम्पलाई स्टॉक ऑप्शन प्लान 2021 का रेटिफिकेशन, तथा

b) ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, 20 अगस्त, 2021 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और शनिवार, 18 सितम्बर,

या डिपॉजिटरी द्वारा अनरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा अपना मतदान करने के पात्र होंगे। d) यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.zomato.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड

कम्पनी सदस्य जो कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट प्रारूप में धारण करते हैं और जिन्होंने वे अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे एलआईआईपीएल की वेबसाइट www.linkintime.co.in में लिंक

कृते जोमाटो लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

तिथि अनुसार बकाया गणि

THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah

Zafar Marg, New Delhi - 110002

Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943 Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458 Email: nationalheralddelhi@gmail.com Website: www.nationalheraldindia.com

एतदद्वारा सुवित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल. 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020 और 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (लाग् परिपत्रों) के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 83वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 को प्रातः 10.30 बजे (भारतीय समयानुसार) विश्वियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने उन सदस्यों को एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक

रिपोर्ट भेजने का कार्य पुरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते कंपनी या उनके डिपॉजिटरी

प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को ई-मेल के माध्यम से भेजने का कार्य मंगलवार, 17 अगस्त, 2021 को पूरा कर लिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में सदस्यों को एजीएम ('रिमोट ई-वोटिंग') और एजीएम के दिन ई-वोटिंग के स्थान के अलावा अन्य स्थान से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के इंस्टा वोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा एजीएम की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना बोट देने की सुविधा प्रदान की जा रही है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है। सदस्यों का वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 03 सितम्बर, 2021 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के आनुपातिक होगा। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वह एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा दोट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वही सदस्य एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे। एजीएम की सूचना को कंपनी की वंबसाइट http://nationalheraldindia.com/corporate-governance/agm और एलआईआईपीएल की वेबसाइट http://instavote.linkintime.co.in पर भी रखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के शेयर एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद अधिगृहित किए हैं और कंपनी का सदस्य बने है और कट-ऑफ तिथि पर जिनके पास कंपनी के शेयर हैं. वह instavote@linkintime.co.in पर अनरोध भेजकर या फोन नं. 022-49186000

अपना वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट दें सकता है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 06 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9.00 बर्ज (भारतीय समयानुसारं) प्रारंभ होगी और गुरूवार, 09 शितम्बर, 2021 को साथं 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) बंद होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक अपना वोट रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से दे सकते हैं। 09 सितम्बर, 2021 को साथ 5.00 (भारतीय समयानुसार) बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-बोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना को देखें। ई—बोटिंग से जुडी किसी भी शिकायत के लिए सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और इंस्टावोट

पर अनरोध के माध्यम से लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। यदापि, यदि

व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए इंस्टा वोट के साथ पंजीकृत हैं तो वह

ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहा, उपाध्यक्ष, एलआईआईपीएल को enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल के माध्यम से लिखें या फोन नं. 022-49186000 पर सम्पर्क करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सचना में दिये गये सभी नोटस और विशेषकर

एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने की प्रक्रिया को मली-भाति पढ लें। कृते दि एसोसिएटेड जर्नस्य लिमिटेड

पवन कुमार बंसल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशिक

DIN: 09015697

तिथि: 17.08.2021 Genus

GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

energizing lives

स्थानः नई दिल्ली

(CIN: L21098UP2012PLC048300) Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001 (U.P.) Phone: 0591-2511171. Fax: 0591-2511242

Website: www.genuspaper.com | Email: cs@genuspaper.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice be and is hereby given that the 10th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') on Saturday, September 18, 2021 at 11.30 A.M. IST, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as 'relevant circulars'), without the physical presence of the members. The members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2020-21 will be sent only by email to all those members of the Company whose email id are registered with the company/ Depository Participants/ Registrar and

Transfer Agent, viz. Niche Technologies Private Limited. These aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.genuspaper.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (https://www.bseindia.com/) and National Stock Exchange of India Limited (https://www.nseindia.com/) and on the website of CDSL at <a href="http://www.evotingindia.com/">http://www.evotingindia.com/</a> in due course of time. Manner of registering/updating email addresses who have not registered /updated their email addresses with the

Company To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2020-21, the members are requested to register/ update their email address / contact number in the following manner: In case of physical holding: Member may send an e-mail request to the Company/RTA at cs@genuspaper.com and

 scanned copy of the signed request letter mentioning Name, Folio Number, Share certificate number, complete address, email address and mobile number, and scanned copy of self-attested PAN card. Further, shareholder may also visit the website <a href="www.genuspaper.com">www.genuspaper.com</a> or in email id <a href="mailto:cs@genuspaper.com">cs@genuspaper.com</a> and update their

email ID/ contact number thereof. In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized form are requested to register / update their email addresses with their relevant Depository Participant The manner of voting remotely (remote E-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be

available on the website of the Company at www.genuspaper.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com/. The login credentials for casting vote through e-voting shall be made available to the members though email. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their votes by remote E-voting will be able to vote at the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during AGM.

In case of any query/grievance pertaining to E-voting, please contact Mr. Anuj Ahluwalia, Company Secretary, Phone No. 0591-2511171, Village Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, e-mail: cs@genuspaper.com This information is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in compliance with the relevant Circulars as referred hereinabove.

By Order of the Board For Genus Paper & Boards Limited Place: Moradabad

Date: August17, 2021

nichetechpl@nichetechpl.com along with

Anuj Ahluwalia **Company Secretary** द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

अंचल कार्यालय ( उत्तर ), प्लॉट नं. 132-134,सेक्टर 44, **J&K** Bank Serving To Empower दूरभाष : +91(0) 0124-4715800, फैक्स : +91(0) 0124-4715800, ई-मेल: iapmd.del@jkbmail.com वेबसाइट :www.jkbank.net

जीएसटीआईएन : 06AAACT6167G1ZB इम्पेयर्ड एसेट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट

गुरुग्राम( हरियाणा ) भारत

(कब्जा सूचना) (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)देखें] जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत द जम्म एंड कश्मीर बैंक लि. के

प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना जारी कर अधोलिखित ऋणधारक/कों को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना मे वर्णित राशि के साथ उस पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वार ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि 16.08.2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय कर्जदार के बकाये तथा उस पर निम्नलिखित ब्याज के लिए द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. (बी/यु: मयुर विहार) के चार्ज

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती का नाम बंधक सम्पत्ति यों का <sup>8</sup> 31.07.2021 तक कर्जदार के खाता सं. मांग सुचना की तिथि तथा राशि प्रति बकाया राशि

	_				
	1.	कैलाश, नई दिल्ली-110065, अब भूतल, इंडस्ट्रियल बिल्ट-अप प्लॉट ई-160, सेक्टर 63, नोएडा, उ.प्र201301, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से: 2. श्री विनय कुमार नारंग पुत्र श्री चन्दर मौिल नारंग निवासी टॉवर नं. I, फ्लैट नं. 1005, 10वीं मंजिल, ग्रैंड अजनारा हेरिटेज, सेक्टर-74 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (कर्जदार सह बंधककर्ता) 3. श्रीमती मीनाक्षी नारंग पत्नी श्री विनय कुमार नारंग निवासी टॉवर नं. I, फ्लैट नं. 1005, 10वीं मंजिल, ग्रैंड अजनारा हेरिटेज, सेक्टर-74 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (जमानती)	मंजिल, टॉवर-I, प्लॉट नं. जीएच-01/बी, सेक्टर 74, नोएडा, जिला गौतम बुद्धनगर, उ.प्र. पर निर्मित का इक्विटेबल बंधक, सुपर एरिया 1815 वर्ग फीट तथा सब-लीज आधार पर भूमि में आनुपातिक अविभाजित इंपार्टिबल हित सहित।	04632680000000008 तिथिः 28.04.2021 राशि ः रु. 55,88,734.11 (रुपये पचपन लाख अट्डासी हजार सात सौ चौंतीस एवं ग्यारह पैसे मात्र)	बकाया देय : रु. 57,74,376.11 (रुपये सत्तावन लाख चौहत्तर हजार तीन सौ छिहत्तर एवं ग्यारह पैसे मात्र) 31.07.2021 तक तथा भावी लागत, ब्याज एवं व्यय आदि।
S. S	2.	<ol> <li>मैसर्स श्री कृष्णा पैकेजिंग, 287, सन्त नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065, अब भूतल, इंडस्ट्रियल बिल्ट-अप प्लॉट ई-160, सेक्टर 63, नोएडा, उ.प्र201301, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से:</li> <li>श्री विनय कुमार नारंग पुत्र श्री चन्दर मौलि नारंग निवासी टॉवर नं. I, फ्लैट नं. 1005, 10वीं मंजिल, ग्रैंड अजनारा हेरिटेज, सेक्टर-74 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (कर्जदार सह बंधककर्ता)</li> <li>श्रीमती मीनाक्षी नारंग पत्नी श्री विनय कुमार नारंग निवासी टॉवर नं. I, फ्लैट नं. 1005, 10वीं मंजिल, ग्रैंड अजनारा हेरिटेज, सेक्टर-74 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (जमानती)</li> <li>श्री मानेश खन्ना पुत्र श्री यशपाल खन्ना, निवासी सी-63, सेक्टर 49, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (जमानती)</li> </ol>	1005, दसवीं मंजिल टॉवर- I, प्लॉट नं. जीएच-01/बी, सेक्टर 74, नोएडा, जिला गौतम बुद्धनगर, उ.प्र. पर निर्मित के इक्विटेबल बंधक पर प्रभार का विस्तार, सुपर एरिया 1815 वर्ग फीट तथा सब-लीज आधार पर भूमि मे आनुपातिक अविभाजित	0463020100000036 तिथिः 28.04.2021 राशि ः रु. 26,61,784.71 (रुपये छब्बीस लाख इकसठ हजार सात सौ चौरासी एवं इकहत्तर पैसे मात्र)	बकाया देय : रु. 27,23,788.71 (रुपये सत्ताईस लाख तेईस हजार सात सौ अट्ठाईस एवं इकहत्तर पैसे मात्र) 31.07.2021 तक तथा भावी लागत, ब्याज एवं व्यय आदि।
	3.	1. मैसर्स रासा, डी-335ए, दूसरी मंजिल, डीएलएफ मॉल	अचल सम्पत्ति सं. आई-	खाता सं.	बकाया देय ः

आफ इंडिया, सेक्टर 18, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201304, 2. श्रीमती मीनाक्षी नारंग पत्नी श्री विनय कुमार नारंग निवासी सेक्टर 74, नोएडा, जिला टॉवर नं. I, फ्लैट नं. 1005, 10वीं मंजिल, ग्रैंड अजनारा गौतम बद्धनगर, उ.प्र. पर

टॉवर नं. I. फ्लैट नं. 1005, 10वीं मंजिल, ग्रैंड अजनार

हेरिटेज. सेक्टर-74 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (जमानती

4. श्री मानेश खन्ना पुत्र श्री यशपाल खन्ना, निवासी सी-63,

सेक्टर 49, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (जमानती)

3. श्री विनय कुमार नारंग पुत्र श्री चन्दर मौलि नारंग निवासी एरिया 1815 वर्ग फीट तथा

1005. दसवीं मंजिल टॉवर-I. प्लॉट नं. जीएच-01/बी. हेरिटेज, सेक्टर-74 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 निर्मित के इक्विटेबल बंधक

सब-लीज आधार पर भिम में

इंपार्टिबल हित सहित।

पर प्रभार का विस्तार, सुपर

0463020100000042 रु. 39,44,723.98 (रुपये तिथिः 28.04.2021 राशि उनतालीस लाख चौवाली हजार सात सौ तेईस मात्र अटठानबे रु. 38,02,710.98 (रुपये

अडतीस लाख दो हजार सात मात्र) 31.07.2021 तक तथा भावी लागत. ब्याज एवं व्यय सौ दस एवं अट्टानबे पैसे आदि । खाता सं. बकाया देय : 0463260540000003 रु. 2.12.343 (रुपये दो लाख बारह हजार तीन सौ तैंतालीस

तिथिः 28.04.2021 राशि रु. 2,05,389 (रुपये दो लाख मात्र) 31.07.2021 तक तथा पाँच हजार तीन सौ नवासी भावी लागत, ब्याज एवं व्यय

प्राधिकृत अधिकारी, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक ि

स्थान : नोएडा, तिथि : 16.08.2021

तिथि: 16 अगस्त. 2021

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम **TATA POWER-DDL** रिज. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली—110009 फोन : 66112222, फॅक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No.: U40109DL2001PLC111526, वेबसाईट : www.tatapower-ddl.com

10.09.2021;1500 Hrs 20.08.2021 10.09,2021;1700 Hrs Revamping Activity For Enhancing Safety In 4,00,000/-

Contracts - 011-66112222

1106, आरजी ट्रेड टावर, बी-7, नेताजी सुभाष प्लेस, एमएसएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनांसियल कन्सल्टैन्टर

स्थानः नई दिल्ली DIN: 00523805

(पूर्व में जोमैटो प्राइवेट लिमिटेड और जोमैटो मीडिया प्राइवेट

फूडी बे एम्पलाई स्टॉक ऑप्शन प्लान, 2014 का रेटिफिकेशन; कम्पनी की अनुषंगी कम्पनि(यों) के कर्मचारियों हेत फड़ी बे एम्पलाई स्टॉक ऑप्शन प्लान, 2014 वे

विस्तारित लाभों का रेटिफिकेशन:

विस्तारित लाभों का रेटिफिकेशन:

की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की

को ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध कराई है। कथित तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी ('एफएक्यू') तथा इंस्टापोट ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं या सम्पर्क करें : दूरभाष : 022 -

रजिस्ट्रेशन हेडिंग का चयन करके उसमें निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से अपना ई-ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट के परिणाम कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 कं

(पूर्व में जोमैटो प्राइवेट लिमिटेड और जोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था

संध्या सेठिया

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार्र